

## प्रेस नोट

धोखाधड़ी व जालसाजी का आरोपी मय नकली मोबिल बनाने के सामान के साथ थाना रामनगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार ।



श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व श्री वेद प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम में शामिल उ०नि० श्री जितेन्द्र गुप्ता मय हमराह उ०नि० अजय कुमार, रि०का० धर्मेन्द्र कुमार, का० अजय कुमार यादव तथा क्राइम टीम के उ०नि० बृजेश मिश्रा ,हे०का० पुनदेव सिंह, हे०का० सुरेन्द्र मौर्या , का० मृत्युन्जय सिंह ,का० शिवबाबू ,का० बालमुकुन्द मौर्या चौक चौराहे पर मौजूद होकर क्षेत्र में घटित घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रामपुर मोहल्ले में एक व्यक्ति अपने घर के अन्दर नकली मोबिल बना रहा है कि सूचना पर विश्वास करके मौके पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारीगण को मकसद बताकर मुखबिर को साथ लेकर मौके पर पहुँचा जहाँ मुखबिर खास द्वारा एक घर की तरफ इशारा कर बताया कि यह वही मकान है जहाँ पर नकली मोबिल तैयार किया जा रहा है कि हम पुलिस वाले मकान के बरामदे में मौजूद व्यक्ति की तरफ बढ़े कि उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया जिसे हम पुलिस वालों ने घेरकर पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता

पूछते हुए उसके भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार मौर्या पुत्र प्रेमचन्द्र मौर्या प्लाट नं0 142 रामपुर थाना-रामनगर जिला- वाराणसी बताया भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब खाली डिब्बे विभिन्न कम्पनी के रैपर छपवाकर मशीन से डिब्बे में नकली मोबिल भर कर पैकिंग कर बाजार में उच्चे दामों पर बेचता हूँ आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से भाग रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 27.06.2021 समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 154/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम मुकेश कुमार मौर्या पुत्र प्रेमचन्द्र मौर्या प्लाट नं0 142 रामपुर थाना-रामनगर जिला- वाराणसी ।

### विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुकेश कुमार मौर्या पुत्र प्रेमचन्द्र मौर्या प्लाट नं0 142 रामपुर थाना-रामनगर जिला- वाराणसी ।

गिरफ्तारी का स्थान:- मुहल्ला रामपुर, थाना रामनगर, कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 27.06.2021 समय 22.00 बजे ।

### विवरण बरामदगी:-

अभियुक्त के कब्जे से 124 अदद कैस्ट्राल एक्टिव के खाली डिब्बे (900ML) बिना रैपर ,76 अदद कैस्ट्राल एक्टिव रैपर सहित मय ढक्कन खाली डिब्बे (900ML), 120 अदद गल्फ फ्राइड रैपर व ढक्कन सहित खाली डिब्बे (900ML), 35 अदद हिरो जेनटिक 4T 900ML के खाली डिब्बे ,400 अदद लाल कलर के डिब्बों के ढक्कन, 50 अदद काला कलर के डिब्बों के ढक्कन, 4 अदद कैस्ट्राल बार कोड सीट जिसमें एक सीट खाली ,19 अदद कैस्ट्राल एक्टिव रैपर सीट जिसमें दो रैपर सीट खाली,एक अदद ढक्कन पैकिंग मशीन ,एक अदद बैरल पम्म मशीन,एक अदद एक लीटर की माप,एक अदद (100 ML) की माप, एक अदद प्लास्टिक की बाल्टी, 08 अदद गल्फ प्राइड के पैकिंग भरे डिब्बे (900ML), व 2 ड्रम में 310 लीटर मोबिल नकली बरामद हुआ ।

### गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी :-

- 1.उ0नि0 जितेन्द्र गुप्ता, चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अजय कुमार, थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अजय कुमार यादव, थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

4. रि०का० धर्मेन्द्र कुमार, थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

**गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी :-**

1. उ०नि० बृजेश मिश्रा, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे०का० पुनदेव सिंह, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे०का० सुरेन्द्र मौर्या, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का० मृत्युन्जय सिंह, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का० शिवबाबू, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का० बालमुकुन्द मौर्या, क्राइम ब्रान्च, कमिश्नरेट वाराणसी।